



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 451]

नई दिल्ली, बुध्दिवार, नवम्बर 1, 1979/कार्तिक 10, 1901

No. 451]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 1, 1979/KARTIKA 10, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय  
(आर्थिक कार्य विभाग)  
(बैंकिंग प्रभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 30 अक्टूबर, 1979

का. आ. 625(अ).—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा श्री जी. पापा राव को श्री अनन्त ग्रामीण बैंक का अध्यक्ष नियुक्त करती है तथा 1 नवम्बर, 1979 से प्रारम्भ होकर 31 अक्टूबर, 1982 को समाप्त होने वाली अवधि को उस अवधि के रूप में निर्धारित करती है जिसके दौरान श्री जी. पापा राव अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे ।

[सं. एफ. 1-7/78-आर. आर. बी.]

दिनेश चन्द्र, निदेशक

MINISTRY OF FINANCE  
(Department of Economic Affairs)

(Banking Division)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 30th October, 1979

S.O. 625(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Regional Rural Banks Act,

1976 (21 of 1976), the Central Government hereby appoints Shri G. Papa Rao as the Chairman of Sree Anantha Grameeena Bank, and specifies the period commencing on the 1st November, 1979 and ending with the 31st October, 1982 as the period for which the said Shri G. Papa Rao shall hold office as such Chairman.

[No. F. 1-7/78-RRB]  
DINESH CHANDRA, Director

का. आ. 626(अ).—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, सिड्डीकेट बैंक के अनुरोध पर 1 नवम्बर, 1979 से आंध्र प्रदेश राज्य में श्री अनन्त ग्रामीण बैंक नाम से एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना करती है जो कि आंध्र प्रदेश राज्य के अनन्तपुर जिले की स्थानीय सीमाओं में कार्य करेगा ।

[सं. एफ. 1-7/78-आर. आर. बी.-(1)]

S.O. 626(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government being requested so to do by Syndicate Bank establishes, with effect from the 1st November, 1979 a Regional Rural Bank in the State of Andhra Pradesh under the name of Sree Anantha Grameeena Bank, which shall operate within the local limits of the district of Anantapur in the State of Andhra Pradesh.

[No. F. 1-7/78-RRB (1)]

का. आ. 627(अ).—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय

रिजर्व बैंक तथा श्री अनन्त ग्रामीण बैंक के प्रायोजक सिंडीकेट बैंक से परामर्श करके अनन्तपुर को उस स्थान के रूप में निर्धारित करती है, जहां पर श्री अनन्त ग्रामीण बैंक का मुख्य कार्यालय होगा।

[सं. एफ. 1-7/78-आर. आर. बी.-(2)]

**S.O. 627(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India and Syndicate Bank by which Sree Anantha Grameena Bank has been sponsored, specifies Anantapur as the place where Sree Ananthu Grameena Bank shall have its head office.

[No. F. 1-7/78-RRB (II)]

**का. भा. 628(अ).**—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 का (2) की धारा 42 की उपधारा (6) के खण्ड (क) के उपखंड (3) के अन्वय में, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा

उक्त उपखंड के प्रयोजनों के लिए, श्री अनन्त ग्रामीण बैंक को प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत स्थापित एक संस्था के रूप में अधिसूचित करती है।

[सं. एफ. 1-7/78-आर. आर. बी.-(3)]

बलदेव सिंह, संयुक्त सचिव

**S.O. 628(E).**—In pursuance of sub-clause (iii) of clause (a) of sub-section (6) of section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Central Government hereby notifies, for the purposes of the said sub-clause, Sree Anantha Grameena Bank, being an institution established under sub-section (1) of section 3 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976).

[No. F. 1-7/78-RRB (II)]

BALDEV SINGH, Jt. Secy.